

Date: 31.05.2023

Department of Corporate Services/Listing BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai -400001 Manager Listing
Ahmadabad Stock Exchange
A-2, Kamdhenu Complex,
Opposite Sahajanand College,
Panjara Pol, Ahmedabad,
Gujarat 380015

Scrip Code: 539922 Symbol: RGIL

Sub: Intimation regarding Audited Standalone Financial Results for the fourth quarter & year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 published in Newspapers

Pursuant to Regulation 47 read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulation"), the Company hereby informs that the Audited Standalone Financial Results, in accordance with the Regulation 33, for the fourth quarter & year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 have been published in the Newspaper "The Pioneer" English and Hindi on 31.05.2023. The copies of said publications are enclosed herewith.

Kindly take the above on record and acknowledge the receipt.

Yours faithfully For Rotographics (India) Limited

SAKSHI Digitally signed by SAKSHI JAIN Date: 2023.05.31 12:33:26 +05'30'

SAKSHI JAIN
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi Encl: As Above

# Khan appears before anti-terrorism court No meeting between US, Chinese defence

 $P_{\text{minister Imran Khan on}}^{\text{akistan's former prime}}$ Tuesday appeared before an anti-terrorism court in four cases, including the attack on Lahore Corp Commander House, and submitted surety bonds in connection with his pre-arrest bail till June 2.

"Khan appeared before the ATC Lahore judge Ijaz Ahmad Buttar and submitted surety bonds worth PKR 100,000 each in the four terrorism cases in which he had already been given pre-arrest bail till June 2," a court official

As the 70-year-old chairman of the Pakistan Tehreeke-Insaf party appeared in the court amid high security, a group of lawyers chanted slogans in his favour.

Khan's counsel also challenged the search warrants of the former premier's Zaman Park Lahore residence in the anti-terrorism court. The judge summoned the Punjab

Particulars

Total Income from operations

Net Profit for the period before

Net Profit for the period after tax

TotalComprehensive Income for

the period [Comprising Profit for

the period (after tax) and Other

Earnings Per Share (of₹10 each)

meeting held on May 30, 2023

Letter No. 818 / Vividh-14 / 47

Date of Calling of tenders

Date of Online publication

support of qualification)

Date of Single Bid Opening

Pre Bid Meeting

www.uktenders.gov.in

Document download : Start Date / End Date

Offline submission of documents (Cost of

bidding document, Bid Security, Original

Affidavits & all the Supporting Documents in

Bid Submission: Start Date / End Date

Name of Schemes:-

10 Months

Comprehensive Income (afte

**Equity Share Capital** 

Other Equity

Basic (₹)

Diluted (₹)

(a)

Place: Delhi

Date: 30.05.2023



police DIG (operations) for next hearing and directed him

to submit a reply. On May 9, violent protests erupted after the arrest of Khan by paramilitary Rangers in Islamabad. His party workers vandalised over 20 military installations and government buildings, including the Lahore Corps Commander House, Mianwali airbase and the ISI building in Faisalabad. The Army headquarters (GHQ) in Rawalpindi was also attacked by the mob for the first time. Khan was later released on bail.

**COSCO (INDIA) LIMITED** 

CIN: L25199DL1980PLC010173

Regd. Office: 2/8, Roop Nagar, Delhi-110 007

Website: www.cosco.in Email: mail@cosco.in

Tel.: 91-11-23843000 Fax: 91-11-23846000

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR

**ENDED 31ST MARCH, 2023** 

31.03.2023

4.147.68

11.94

0.68

3.67

416.10

0.02

Quarter Ended

31.03.2022

99.26

96.32

116.93

416.10

2.31

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under

33of theSEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual

Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com/corporates) and on the Company's

2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at

Office of the Executive Engineer, Construction Division, Uttarakhand Peyjal Nigam, Ramnagar, (Nainital)

(E-mail : eecdujnramnagar@gmail.com, Phone: 05947-251259)

**E-Tender Notice** 

E-tenders are invited through single bid system for the construction work of OHT, Rising main.

providing, laying & jointing of distribution system and appurtenant works for the following drinking

water schemes of Kotabagh and Ramnagar blocks of Nainital district under Jal Jeevan Mission

Programme with supply of all materials, labour and T&P etc complete including testing.

commissioning & handover etc. of the following schemes under Jal Jeevan Mission Programme

1- Mohanpur Rautela W/S Scheme, Block- Kotabag, Period of Completion of work- 10 Months

2- Sobanpur MVS (Tubewell) W/S Scheme, Block- Ramnagar, Period of Completion of work

3- Gumanpur MVS (Tubewell) W/S Scheme, Block- Ramnagar, Period of Completion of work

4- Devipur Muliya GOV W/S Scheme, Block-Ramnagar, Period of Completion of work-10 Months

Note:- For full details of the tender, corrigendum and cancellation etc., please log-in to the website

29-05-2023

05-06-2023 at 17:00 hrs.

12-06-2023 at 13:00 hrs.

21-06-2023 upto 17:00 hrs

22-06-2023 at 15:00 hrs.

06-06-2023 at 11:00 hrs. / 20-06-2023 at 17:00 hrs

14-06-2023 at 11:00 hrs. / 20-06-2023 at 17:00 hrs

5- Basai SVS W/S Scheme, Block- Ramnagar, Period of Completion of work- 10 Months

31.12.2022

Unaudited

3,952.51

48.48

53.35

53.35

416.10

1.28

# Sharif: Anarchists don't qualify for dialogue

Islamabad (PTI): Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif on Tuesday hinted that his government was unwilling to talk with Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf party, saying the "anarchists and arsonists" who wear the garb of politicians and attack the symbols of the state do not

Law enforcement agencies have arrested over 10,000 workers of Khan's Pakistan party across Pakistan, 4,000 of them from Punjab. Police put the death toll in violent clashes to 10 while Khan's party claims 40 of its workers lost their lives in the firing by security personnel.

Meanwhile, two lawyers of Khan appeared before a joint investigation team probing

Year Ended

31.03.2022

Audited

250.90

192.01

212.30

416.10

4,168.39

4.61

4.61

By Order of the Board for Cosco (India) Limited

Devinder Kumar Jain

Managing Director and CEO DIN : 00191539

31.03.2023

15,318.31

90.50

68.05

71.04

416.10

4,239.43

1.64

1.64

JIT summons ex-Pak PM Lahore (PTI): A joint investigation team probing the violent qualify for a dialogue. Khan,

70, who was ousted via a vote attack on the historic Corps of no confidence in April last Commander House or the year, said he is ready to speak Jinnah House here on May 9 has to "anyone who is in power" after his party's top leaders summoned former Pakistan prime minister Imran Khan on began to quit the party follow-Tuesday. Khan, the chief of the ing the May 9 riots in which Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party, has been asked to appear before the JIT at 4 pm at the sensitive military installations were attacked. Qilla Gujjar police headquarters in Lahore. He has been called the attack on Corps Commander House known as for questioning in a case regis-Jinnah House in Lahore. tered with the Sarwar Road The joint investigation police station against the attack. team - formed by the Punjab Jinnah House (Corps interim government to probe Commander House) was arson attacks on Jinnah House torched by arsonists following and the Askari Corporate the anti-government protests

Tower in Lahore on May 9 against the arrest of Khan on had summoned Khan for May 9. A large number of PTI Tuesday to record his stateparty workers May 9 stormed the Jinnah House and set it on ment but he sent his lawyers fire after vandalising it.

INBREW BEVERACES PRIVATE LIMITED
CIN: U99999DL1972PTC318242,
Regd. Office: 406 Kusal Bazar 32-33 Nehru Place New Delhi, 110019, South Delhi
Website: www.inbrew.com, E-Mail: info@inbrew.com, Ph.: 011 410 70148,
EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2023

53.38

7,987.77

53.38

8,020.90

The above is an extract of the detailed format of Audited financial results for quarter and year ended 31 March 23 filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing and Other Discosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on stock exchange website www.bseindia.com and website of the company website.

The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 29 May 2023.

The impact on net profit loss, total comprehensive income or any other relevant financial

items(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote

Particulars

ncome Revenue from

Income (het of tax)
Total comprehensive incom
for the period/year
Paid-up equity share capite
(face value of ₹ 10 each)
Reserve (excluding
Revaluation Reserve)
Security Premium Account
Net worth
Paid-up Debt capital/
Outstanding Debt
Outstanding Redeemable
Preference Shares

Preference Shares

Debt Equity Ratio

Earnings per share
(face value of ₹ 10 each)

ended 31st March 2023 is as follows: 'articulars

ncrease in the depreciation expense ncrease in the operating expenses

Restatement in the earnings per share

Loss per share (face value Rs. 10 each) (not annualised) () Basic (ii) Diluted

Particulars 4 8 1

Particulars

Depreciation and amortisation expense Loss before tax

Date: 29.05.2023 Place: Gurugram

Impact on Financial statements - Balance Sheet

Increase in property, plant and equipment-net Decrease in the inventory

Impact on Financial statements - Statement of Profit and Loss

It is impracticable for the Company to estimate the impact of the above change in es ulture periods, therefore the same has not been disclosed.

Restatement in the Unaudited Statement of financial results profit and loss for the quarter ended 31 December 2022 :

Restated for the

31.12.2022

Restated for the Quarter Ended 31.12.2022

not annualized)

Three Months Ended Year Ended 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2022

(Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (23,775.31 22,648.34 601.86 48,953.20 3,489.43

37.47

(4.40)

53.38

37.47

386.63

31.03.2023

62.98 21.70 (85.09)

Impact Reported for the

Reported for the

( in Lakh, except per share date

31.12.2022

# chiefs, says Beijing

Prospects for a renewed high-level military dialogue between China and the US remain dim, with Beijing saying their defense chiefs will not hold a bilateral meeting while both are attending a weekend security conference in Singapore.

Foreign Ministry spokesperson Mao Ning on Tuesday blamed the US, saying Washington should "earnestly respect China's sovereignty and security interests and concerns, immediately correct the wrongdoing, show sincerity, and create the necessary atmosphere and conditions for dialogue and communication between the two militaries." Mao gave no details, but tensions between the sides have spiked over Washington's military support and sales of defensive weapons to selfgoverning Taiwan, China's assertions of sovereignty to the contested South China Sea and its flying of a suspected spy balloon over the US.

US Defence Secretary Lloyd Austin is scheduled to address the Shangri-La Dialogue on Saturday, while Chinese Defense Minister Gen. Li Shangfu will speak at the gathering on Sunday.

Austin met privately with Li's predecessor, Wei Fenghe, at last year's Shangri-La Dialogue, which appeared to do little to smooth relations between the sides. In his address to the forum, Wei accused the US of

seeking to contain China's development and threatening to assert its claim to Taiwan by military force. Chinese leader Xi Jinping and U.S. President Joe Biden met on the sidelines of the Group of 20 meeting of large economies in November in Indonesia, but con-

tacts have proceeded only sporadically since then, with only side meetings on neutral territory. Secretary of State Antony Blinken canceled a visit to Beijing in February after the US shot down a Chinese

spy balloon that had crossed the United States. He later met with the Communist Party's senior foreign affairs adviser Wang Yi in Austria.

China refused to take a phone call from Austin to discuss the balloon issue, the Pentagon said.

MOULIN COMMERCIAL LIMITED , Anand Gram, Aya Nagar, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047 L74899DL1982PLC067811 Telephone No.: 91-124-4301035 E-Mail: info@vinyIgroup.comWebsite: www.moulin.co.in Statement of Audited Standalone Financial Results for the

Fourth Quarter & Financial Year Ended 31st March, 2023 (Rs.in Lacs except per share data)					
B (C. )	_ `	Quarter ended			
Particular	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)		
Total Income from Operations	8.57	27.09	81.11		
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.87)	1.28	14.17		
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.87)	1.28	14.17		
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4.95)	0.88	11.88		
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(5.69)	0.64	11.67		
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	57.30	57.30	57.30		
Reserves excluding Revaluation Reserves	-				
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-	(0.00)	0.44	0.04		
1. Basic: 2. Diluted: Notes:	(0.99) (0.99)	0.11 0.11	2.04 2.04		

items(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

(3a) During the current quarter, the Company conducted an operational efficiency review for the return of bottles which has resulted in change in the estimated useful life and classification of the returnable bottles. Basis the industry practice and assessement made by the management regarding the return trend of bottles, the estimation of useful life estimated to be 3 years. The Company has estimated that the future economic benefits from bottles will flow to the entity over the period of 3 years and the cost of the item can also be measured reliably. This change has resulted into change in the classification of the bottles from the 'Inventories' to 'Property, plant and equipment'. These changes have been considered as change in the estimate as per Ind AS 8 (Accounting policies, Change in Accounting Estimates and Errors) and have been accounted for prospectively from 1st January 2023. The impact of above change for the year ended 31st March 2023 is as follows: The above is an extract of the detailed format of the Audited Standalone Financia Results for the fourth quarter and financial year ended 31st March, 2023 filed with the CSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The ful format of the Financial Results ended 31st March, 2023 is available on CSE website (https://www.cse-india.com/) and Company's website (www.moulin.co.in)

The above Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee approved by the Board of Directorsin its meeting held on 30th May, 2023.

For MOULIN COMMERCIAL LIMITED

ASHISH GUPTA (MANAGING DIRECTOR)

## **China launches** first spaceship with civilian

Beijing/Jiuquan (PTI): China on Tuesday successfully launched the Shenzhou-16 manned spaceship, sending three astronauts, including the first civilian to its space station combination for a five-month mission.

The spaceship, atop a Long March-2F carrier rocket, blasted off from the Jiuquan Satellite Launch Centre in northwest China at 9:31 AM (Beijing Time), according to the China Manned



Space Agency (CMSA).

About 10 minutes after the launch, Shenzhou-16 separated from the rocket and entered its designated orbit. The crew members are in good shape and the launch is a complete success, the CMSA declared, it said. The astronauts are expected to dock with the station's Tianhe core module about 400km above the ground - after a journey of less than seven hours.

For the first time, China has included a civilian in its rotating crew for the space station which otherwise remained a domain of the military personnel. Gui Haichao, a professor at Beihang University in Beijing regarded as a payload specialist was among the three astronauts.

The other two are mission's commander Jing Haipeng, who is also making history by becoming the first Chinese astronaut to go into space for a record fourth time.

The astronaut flight engineer Zhu Yangzhu is also making his first journey

The Shenzhou-16 will be the first crew mission after China's space station programme entered the stage of application and development, Lin Xiqiang, deputy director of the CMSA told the media on Monday. The trio will stay in orbit for about five months, he said.

Once ready, China will be the only country to own a space station as the International Space Station (ISS) of Russia is a collaborative project of several countries. The ISS station is also set to be decommissioned by 2030.

The significant feature of China's space station is its two robotic arms, especially the long one which has the ability to grab objects, including satellites from space. After entering orbit, the Shenzhou-16 spaceship will make a fast, automated rendezvous and docking with the space station combination.

### **ZEL JEWELLERS LIMITED**

REGISTERED OFFICE: E-5, South Extension, Part-II, New Delhi-110 049 CIN:- L74899DL1994PLC058832 Website:www.rkjewellers.in Email ID:zeljewellers@yahoo.co.in Statement of Audited Standalone Financial Results for the Fourth Quarter & Financial Year Ended March 31, 2023 (Rs in Lacs except per share data)

future periods, therefore the same has not to (3b) On 30 September 2022, the Company brands and franchise of 11 other brands eration of 1 10613.59 million which inc	acquired the business from United Spirits Limit	ed (USL) for a total consid-	Statement of Audited Standalone Fin Year Ei	nded March 31, 20		
recognised at fair value as per the terms Company had acquired these aforesaid subject to certain conditions, (a) to conv rights to use and / or (b) to acquire su undertaking is being accounted for as a	s and conditions of the S 111 other brands with a ert fixed term franchise uch brands. The above a	Slump Sale Agreement. The an option to the Company, arrangement with perpetual acquisition of the business	PARTICULARS	QUARTER ENDED 31.03.2023 Audited	QUARTER ENDED 31.03.2022 Audited	YEAR ENDED 31.03.2023 Audited
accounting as per Ind AS 103 "Business business combination transaction, as at 3 such assets and liabilities on a provision allocation within the measurement period	Combinations". Further 30 September 2022, the all basis, pending complete of one year as allowed	pending accounting of such Company had accounted for letion of the purchase price I under paragraph 45 of Ind	Total Income from operations (net) Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or	1644.57 5.03	1351.45 -33.76	6723.21 441.28
AS 103. The management has completed quarter ended 31 March 2023 and cons period i.e., for the quarter ended 31 Dece AS 103, the impact of which is presented.	sequently, the financial ember 22 have been rest d below. Also, the excess	results for the comparative rated in accordance with Indias of purchase consideration	Extraordinary Items Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items	5.03	-33.76	441.28
over the fair value of identified assets a recognized as goodwill. The restatement the date of acquisition:	of provisional amounts o	f assets and liabilities as at	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or	58.81	-27.24	342.15
Particulars	Final fair value as at 30.09.2022 (₹ in millions)	Provisional fair value as at 30.09.2022 (₹ in millions)	Extraordinary Items Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit/(Loss) for	58.81	-27.24	342.15
Purchase Consideration* Less: assets acquired: Property plant and equipment's Intangible Assets (Brands, distributor network, licensing agreements,	10,613.59 1,133.90	10,563.86 596.55	the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid Up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	355.00	355.00	355.00
franchisee relationships and franchisee rights) Net working capital Goodwill	5,408.70 4,002.59 <b>68.40</b>	13.14 4,033.61 <b>5,920.56</b>	Other Equity Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and	-	-	-
* The purchase consideration has changed diterms of slump sale agreement.  Restatement in the Unaudited Statement of f			discounted operations) Basic Diluted	1.66 1.66	-0.77 -0.77	9.64 9.64

NOTE: (i) The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone Financia esults for the fourth Quarter and Financial Year ended March 31, 2023 filed with the MSEI under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Full format of the Financial Results ended March 31, 2023 is available on the MSEI Website www.mtlisting.msei.in) and Company's website (https://rkjewellers.in) (ii) The abov Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 30th May, 2023

For & on behalf of Board of Directors of For Zel Jewellers Limited

RakeshSharma, Managing Directo DIN NO.:00122870

# Musk meets Chinese FM

Beijing: China's foreign minis-Musk on Tuesday and said strained US-Chinese relations require "mutual respect," while delivering a message of reassurance that foreign companies are

welcome. US-Chinese relations are especially tense after Washington shot down a Chinese balloon believed to be gathering intelligence and warned Beijing against supplying arms to Russia for its war against Ukraine. The Wall Street Journal reported China has rejected a request for its defense minister to meet the U.S. defense secretary when both are in Singapore this weekend.

"We need to keep the steering wheel in the right direction of mutual respect, peaceful coexistence and win-win cooperation," Oin Gang told Musk, according to a ministry statement. The two sides should "avoid dangerous driving," Qin said. He gave no details of steps to improve relations.

## **ADDI INDUSTRIES LIMITED**

Executive Engineer

CIN: L51109DL1980PLC256335

REGD.OFFICE: A-104 3rd FLOOR DDA SHED OKHLA PHASE-2 NEW DELHI- 110020

Tel:: +91-11-45025499; E - Mail: addlind@gmail.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

Particulars Year ended 31.03.2022 31.03.2022 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2023 Total income from operations
 Net Profit for the period (before Tax and exceptional items)

Net Profit for the period 86.78 35.67 289.44 (87.31)90.32 302.33 (74.52)87.23 4,564.52 2,131.89 4,577.31 (before Tax, after exceptional items Net Profit for the period after Tax 69.45 36.29 2,119.00 90.77 72.58 39.46 73.27 133.45 1.692.68 3,727.78 76.34 53.00 136.31 1.704.05 3,739.47 (after exceptional items) 50.22 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit fo the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax 72.76 133.50 1,692.59 3,728.34 75.83 136.35 3,740.03 (Face Value ` 5/- each)
Earnings Per Share (of ` 5/- each (Not Annualised) 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00

1. The above is an extract of the detailed format of quarter/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure requirements) Regulation, 2015. The full format of the quart annual financial results are available on the webites of the stock exchange. (URL-www.bseindia.com) and Company website: http://www.addiindustries.com.

2. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on May 30, 2023. The financial results for the quarter and year ended March 31, 2023 has

been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company. There is no change(s) in accounting policies which have impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) 4. Exceptional items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules

For and on behalf of Board of Directo

**ROTOGRAPHICS (INDIA) LIMITED** 

CIN: L74899DL1976PLC008036 Regd. Office: Unit No. 8, Ground Floor, Pocket M, Sarita Vihar, New Delhi 110076 Telephone: 011-47366600 E-mail: info@rotoindia.co.in Website: www.rotoindia.co.in

ENDED MA	ARCH 31, 2023		(In Lakhs Except EPS)
Particulars	Quarter Ended 31.03.2023 Audited	Year Ended 31.03.2023 Audited	Quarter Ended 31.03.2022 Audited
Total Income from Operations(Net)	12.76	20.60	11.40
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	4.04	2.09	3.58
Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and /or Extraordinary items)	4.04	2.09	3.58
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	3.51	1.55	2.71
Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	3.53	1.57	2.72
Equity Share Capital	360.13	360.13	360.13
Earning Per Share Basic and diluted (not annualised)	0.10	0.04	0.08

.The Above is an extract of the detailed format of Audited financial Results for the Fourth Quarter and year ended March 31, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regultions 2015.The full format of udited financial Results for the Fourth Quarter and year ended March 31, 2023 are available on the stock exchange vebsite www.bseindia.com and Company's Website at www.rotoindia.co.in

at their meeting held on 30.05.2023.

For Rotographics (India) Limited Sakshi Jain Company Secretary

Place: New Delhi Date: 31.05.2023

# जितिन प्रसाद ने रखी उपरगामी पुल की आधारशिला

# विधि विधान से रखी आधारशिला

संवाददाता। पुखरायां, कानपुर

भोगनीपुर के निकट मुगलरोड स्थित झाँसी-कानपुर रेलवे रूट पर बहुप्रतिक्षित हलधरपुर रेलवे क्रासिंग के उपरगामी पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के सार्वजनिक लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को भोगनीपुर में सीओ कार्यालय के निकट हवन पूजन के बाद उपरगामी पुल की आधारशिला रखी। इस

पेज एक का शेष

शाह ने ट्वीट किया, मणिपुर में महिला नेताओं (मीरा पैबी)

के समूह के साथ बैठक की। मणिपुर के समाज में महिलाओं

की भूमिका के महत्व को दोहराया। साथ मिलकर, हम राज्य

में शांति एवं खुशहाली बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक

अलग ट्वीट में. शाह ने कहा, आज इंफाल में विभिन्न

नागरिक संगठनों के सदस्यों के साथ सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने

शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और आश्वासन

दिया कि हम साथ मिलकर मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल

करने का मार्ग प्रशस्त करने में योगदान देंगे। गृह मंत्रालय के

एक प्रवक्ता के अनुसार मंगलवार सुबह इंफाल में हुई बैठक

में गणमान्य व्यक्तियों ने शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता का

आश्वासन दिया और यह भी कहा कि वे राज्य में शांति बहाल

करने की दिशा में काम करेंगे। आईबी प्रमुख और गृह सचिव

के साथ हेलीकॉप्टर से चूराचांदपुर के लिए उड़ान भरने वाले

शाह ने चर्च के पदाधिकारियों के साथ-साथ कुकी समुदाय के

बृद्धिजीवियों से भी मुलाकात की, ताकि उनकी शिकायतों को

समझा जा सके और पूर्वोत्तर राज्य में शांति लाने के तरीके खोजे

जा सकें। बाद में शाम को इंफाल में शाह ने मुख्यमंत्री एन

बीरेन सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के संग सुरक्षा

समीक्षा बैठक की। उन्होंने इंफाल में सर्वदलीय बैठक भी

की। शाह बुधवार को मोरेह और कांगपोकपी इलाकों का

दौरा करेंगे। वे मोरेह में विभिन्न स्थानीय समृहों से संवाद

करेंगे। इसके बाद कांगपोकपी में सिविल सोसाइटी संगठनों

के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव अजय

भल्ला तथा खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका ने शाह के

साथ सभी बैठकों में शिरकत की। भल्ला और डेका शाह के

साथ यात्रा कर रहे हैं। सोमवार रात इंफाल पहुंचने के बाद

गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, उनके मंत्रिमंडल

सहयोगियों और कुछ नेताओं के साथ बैठक की थी। मणिपुर

में तीन मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से गृह मंत्री की

हमने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति

का उग्रवाद से संबंध नहीं है। जनरल चौहान ने कहा कि यह

दो जातीय समृहों के बीच हिंसा और कानून-व्यवस्था से

संबंधित मामला है। सीडीएस ने कहा, हम समस्या के

समाधान के लिए राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं। उन्होंने

राइफल्स ने वहां उत्कष्ट काम किया है और बडी संख्या में

लोगों की जान बचाई है। हालांकि मणिपुर में चुनौतियां खत्म

नहीं हुई हैं, इसमें कुछ समय लगेगा। उम्मीद है कि समाधान

निकलेगा और वहां सरकार सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र

ताकि मणिपुर के सामने उत्पन्न असाधारण स्थिति का समाधान

हो सके और तत्काल सामान्य स्थिति बहाल हो सके। एक

जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस, मणिपुर में शांति

बहाली के लिए उठाए जाने वाले किसी भी कदम का समर्थन करने के लिए तैयार है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने

आरोप लगाया कि मणिपर जल रहा था. लेकिन प्रधानमंत्री

मोदी और गहमंत्री अमित शाह कर्नाटक चनाव में व्यस्त थे

साक्षी ने बयान में कहा कि पदक हमारी जान हैं, हमारी

आत्मा हैं। हम इन्हें गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा

मां है। इनके गंगा में बहने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन

पर बैठ जाएंगे। साक्षी की साथी पहलवान विनेश फोगाट ने

भी इस बयान को शेयर किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गेट

हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी

देह त्याग दी। हम उनके जितने तो पवित्र नहीं हैं, लेकिन

क्योंकि इनको मणिपुर की कोई परवाह नहीं थी।

पुलिस बल) आदि की मदद से काम कर पाएगी।

राज्य की यह पहली यात्रा है।

उग्रवाद नहीं...

राष्ट्रपति से...

पहलवानों...

मणिपुर हिंसा...



आधारशिला रखने के लिये हवन पूजन करते मंत्रीगण

दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री भानु प्रताप वर्मा, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक राकेश सचान, राज्यमंत्री अजीत पाल सिंह एवं विधायक पूनम संखवार भी मौजूद

चतुर्वेदी लॉन में एक जनसभा आयोजित की गई। जिसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लोक निर्माण मंत्री निर्माण मंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों में प्रदेश के सभी रहे। आधारशिला रखने के बाद राज्य मार्गों व प्रमुख जिला मार्गों को

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए हमारी भावना भी उन सैनिकों

जैसी ही थी। साक्षी ने कहा कि तंत्र ने उत्पीड़क को पकड़ने की जगह पीडितों को डराने और विरोध रोकने का प्रयास किया। हालांकि, दिल्ली पलिस ने कहा कि वे इंडिया गेट पर

उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि यह राष्ट्रीय

स्मारक है, प्रदर्शन करने की जगह नहीं। इस बीच, किसान

संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने पहलवानों के समर्थन में एक

जून को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। मोर्चा ने एक बयान में कहा कि उसने भारतीय पहलवानों द्वारा विरोध

करने के लोकतांत्रिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए

और समाज के अन्य सभी वर्गों और भाजपा सांसद

बुजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए

देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। दुसरी ओर,

दुनियाभर में पहलवानों की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड

रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने भारतीय पहलवानों पर

पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। संस्था ने भारतीय

शशि सूदन ने बताया कि जम्मू के जीएमसी अस्पताल में 57

घायलों को भर्ती कराया गया है जिनमें से दो की हालत नाजुक

है। उन्होंने कहा, अस्पताल लाने तक दो लोगों की मौत हो

चुकी थी और अन्य ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।

सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि 10 शव बरामद

किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बस सुबह साढ़े छह बजे से सात बजे के बीच जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर

फिसल गई और झज्जर कोटली में एक नाले पर बने पुल से

(डीजीपी) दिलबाग सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत

होता है कि हादसा मानवीय भूल अथवा तेज गति के कारण

हुआ। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हादसे के कारणों की

जांच की जा रही है। यात्रियों में से एक रविंदर पांडे ने बताया

कि उन्हें लगा कि बस से कुछ टकराया है। उन्होंने कहा, उसका

संतुलन बिगड़ गया और वह लुढ़क गई। वाहन अमृतसर से

कटरा जा रहा था, जिसमें माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर की

तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे लोग सवार थे। घटना स्थल पर

भयावह दृश्य था जहां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी बस में

लोगों के शव फंसे हुए थे। हादसे में बचे रमेश कुमार ने बताया

इस मुद्दे की जांच के लिए एनसीईआरटी द्वारा विशेषज्ञों की

एक सिमति गठित की गई थी और उसकी सिफारिशों के

एनसीईआरटी ने शुद्धि पत्र जारी किया है। नए शैक्षणिक

सत्र के लिए भौतिक रूप से पुस्तकें मुद्रित की जा चुकी

हैं, वहीं डिजिटल पुस्तकों में बदलाव दिखेगा। आनंदपुर

साहिब प्रस्ताव 1973 में शिरोमणि अकाली दल द्वारा

अपनाया गया एक दस्तावेज था। प्रस्ताव में सिख धर्म के

प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई और पंजाब के

लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की गई। इसमें यह भी

मांग की गई कि चंडीगढ़ शहर को पंजाब को सौंप दिया

जाना चाहिए और पड़ोसी राज्यों में पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। एनसीईआरटी की

पाठ्यपुस्तकों से कई विषयों और अंशों को हटाने से पिछले

महीने विवाद शुरू हो गया था और विपक्ष ने केंद्र पर बदले

की भावना के साथ लीपापोती करने का आरोप लगाया था।

वहां उसकी मेडिकल जांच के बाद सोमवार देर शाम उसे

राष्ट्रीय राजधानी लाया गया। पुलिस के मुताबिक घटना की

सूचना पुलिस को देने में करीब 25 मिनट की देरी हुई। आसपास खडे लोगों में से किसी ने भी पीसीआर कॉल

नहीं की। वारदात के समय भी लोग वहां से गजरते रहे.

लेकिन किसी ने भी हमलावर को रोकने या शोर मचाकर

भीड़ इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाई। यह एक

पुलिस मुखबिर था, जिसने पुलिस को घटना के बारे में

सूचित किया। इसके बाद रात करीब साढ़े नौ बजे पुलिस

कराना था। हमारे कई रिश्तेदार साथ थे।

एनसीईआरटी..

साहिल ने...

गिर गई। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक

कुश्ती संघ को बर्खास्त करने की भी चेतावनी दी है।

वैष्णो देवी...

चुंकि उग्रवाद से उपजी स्थित सामान्य हो गई थी, इसलिए हम माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे क्योंकि बच्चे का मुंडन

कहा, में यह बताना चाहूंगा कि सशस्त्र बलों और असम आधार पर निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा,

न्यूनतम दो लेन चौड़ा करने की ऋासिंग पर रेल उपरिगामी सेतु के कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया है। कस्बों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर अत्यधिक यातायात होने के कारण बाईपास प्रस्तावित किए जाने की कार्ययोजना तैयार की गईं हैं। इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का किए।

अतिऋमण मुक्त करने के लिये बृहत पांट्न पुलों के स्थान पर पक्के अभियान चलाने के निर्देश दिये गए पुलों का चरणबद्ध निर्माण कराया जाएगा। सभी जिलों की कार्ययोजना इस प्रकार तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि हर जिले में लगभग समान धनराशि स्वी..त की जा सके। बताया कि रेलवे के साथ अनुबंध कर एक लाख से अधिक ट्रैफिक व्हीकल निर्माण के लिए सेतु निगम प्रस्ताव उपलब्ध कराये गए हैं। अंतरराज्यीय मार्गों पर निर्माणाधीन स्वागत द्वार और ब्लाक मुख्यालयों के कार्यों को

हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री भान प्रताप वर्मा सांसद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने केंद्र व प्रदेश में भरपुर विकास किया गया है। जो विकास हुए हैं वह 70 वर्षों में नहीं हो पाए उन्हें सात वर्षों में पूरा किया गया है। देश में मजदूर, किसान एवं व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के उपयुक्त वातावरण है। भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संकल्पित है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह व विधायक पुनम संखवार ने भी विचार व्यक्त

पापों का नाश हो जाता है। इन दस

पाप में तीन दैहिक, चार वाणी के द्वारा

किए पाप और तीन मानसिक पाप

शामिल है।

# ७५०० रुपये व बाइक समेत दो लुटेरे गिरफ्तार

चित्रक्ट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देश पर अपराधियों पर अंकुश लगाने को जारी अभियान में एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी एवं सीओ मऊ राजकमल की देखरेख में प्रभारी निरीक्षक बरगढ अंजनी कुमार सिंह ने लूट की घटना का खुलासा किया है। दो आरोपियों को लूट के 7500 रुपये व घटना मे मोटरबाइक समेत गिरफ्तार किया है।

ज्ञात है कि छह जनवरी 2023 को रामप्रसाद पुत्र स्व बल्लू आदिवासी निवासी दुबी मौजा रैपुरा थाना बरगढ के साथ मुन्ना गुप्ता की चाय की दुकान अशोक चौराहा थाना बरगढ के पास मोटरबाइक सवार दो अज्ञात लोगों ने 20 हजार रुपये की लूट की थी। इस सम्बन्ध में थाना बरगढ़ में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ व दरोगा अनिल कुमार मिश्रा को मामले विवेचना को निर्देश दिया था।

#### **ZEL JEWELLERS LIMITED**

REGISTERED OFFICE: E-5, South Extension, Part-II, New Delhi-110 049 CIN:- L74899DL1994PLC058832 Website:www.rkjewellers.in Email ID:zeljewellers@yahoo.co.in ment of Audited Standalone Financial Results for the Fourth Quarter & Financial Year Ended March 31, 2023 (Rs in Lacs except per share data

PARTICULARS	QUARTER ENDED 31.03.2023 Audited	QUARTER ENDED 31.03.2022 Audited	YEAR ENDED 31.03.2023 Audited
Total Income from operations (net) Net Profit/(Loss) for the period	1644.57 5.03	1351.45 -33.76	6723.21 441.28
(before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items	0.00	00.70	441.20
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or	5.03	-33.76	441.28
Extraordinary Items Net Profit/(Loss) for the period	58.81	-27 24	342.15
after tax (after Exceptional and/or	30.61	-27.24	342.13
Extraordinary Items Total Comprehensive Income for the	58.81	-27.24	342.15
Period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other			
Comprehensive Income (after tax)] Paid Up Equity Share Capital	355.00	355.00	355.00
(of Rs. 10/- each)	000.00	000.00	000.00
Other Equity	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and			
discounted operations)			
Basic	1.66	-0.77	9.64
Diluted	1.66	-0.77	9.64

NOTE: (i) The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone Financia Results for the fourth Quarter and Financial Year ended March 31, 2023 filed with the MSEI under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Full format of the Financial Results ended March 31, 2023 is available on the MSEI Website ( www.mtlisting.msei.in) and Company's website (https://rkjewellers.in) (ii) The above Audited Financial Results were reviewed by the Audit Com Board of Directors in its meeting held on 30th May, 2023

For & on behalf of Board of Directors o

# गंगा दशहरा में श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब

संवाददाता। चित्रकूट

हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर्व का बड़ा ही महत्व माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान और नीलकंठ के दर्शन करता है वह बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। इसीलिए लोगों गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान जरूर करते हैं। मान्यता ये भी है जो भी लोग गंगा स्नान करते हैं उनके कई तरह के पाप भी कट जाते हैं।

इस बार गंगा दशहरा जेष्ठ मास के 30 मई को गंगा दशहरा पर्व मनाया गया। चित्रकुट के भरत मन्दिर के मंहत दिव्यजीवन दास बताते हैं कि पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 29 मई को सुबह 11 बजकर 49 मिनट पर शुरू होगी। अगले दिन 30 मई को दोपहर एक बजकर सात मिनट पर खत्म होगी। उदयातिथि के अनुसार गंगा

गंगा स्नान करता है उसके दस तरह के खास शुभ महर्त जाना जाएगा और बहुत ही खास दिन रहेगा। चित्रकृट के मंहत दिव्यजीवन दास जी ने बताया कि मंदाकनी में जो गंगा दशहरा के दिन स्नान करता है तो

उसके दस तरह के पाप कट जाते है। पुराणों में जैसे वर्णन है जैसे की ब्रह्मपुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र विशेष महत्व रखता दशहरा 30 मई को मान्य रहेगा। ये है। मान्यता है कि इस अवधि में जो

कानपुर देहात। प्रधानाचार्यए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानए भोगनीपुर

**TOSHA INTERNATIONAL LIMITED** CIN:- L32101DL1988PLC119284;E-mail:toshainternational@yahoo.com Extract of Annual Audited Financial Results for the Quarter and

	31.03.2023 Audited	Previous Year 31.03.2022 Audited	Current Year 31.12.2022 Un- Audited	31.03.2023 Audited	31.03. 2022 Audited
Total Income From	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operations Net Profit /(Loss) for the period before tax (Exceptional and/or Extraordinary	-45.45	-30.92	-49.89	-182.37	-140.95
Items) Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-45.45	-30.92	-49.89	-182.37	-140.95
Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-45.45	-30.92	-49.89	-182.37	-140.95
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for Period (after tax) and Other Comprehensive Income [after tax)]	-45.45	-30.92	-49.89	-182.37	-140.95
Equity Share Capital	1144.93	1144.93	1144.93	1144.93	1144.93
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheets	-2387.43	-2246.48	-2246.48	-2387.43	-2246.48
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each (for continuing and discontinued operations) Basic	-0.40	-0.27	-0.44	-1.59	-1.23

1. There is no gulification on the audited report for the guarter and year ended 31st March

Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of the Stock Exchange websites;www.cse.india.com. The Same s also available at Company's website at www.toshainternationalli

# प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु करे आवेदन

द्वारा बताया गया की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानए भोगनीपुर कानपुर देहात में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत कोर्स के बैच का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण पूर्णता नि:शुल्क है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक अभिलेखए आधार कार्डए जाति प्रमाणपत्रए बैंक पासबुक की छायाप्रतियों एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ अपना आवेदन किसी भी कार्यदिवस में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानए भोगनीपुर कानपुर देहात कार्यालय में जमा कर सकते है। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 05ण06ण2023 अपराह्म. 03:00 तक है। प्रवेश पहले आओ एवं पहले पाओं के आधार पर दिया जाएगा।

PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2023 Audited	Correspondng Quarter Ended in Previous Year 31.03.2022 Audited	Preceding Quarter Ended in Current Year 31.12.2022 Un- Audited	Current Year Ended 31.03.2023 Audited	Previous Year Ended 31.03. 2022 Audited
Total Income From Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit /(Loss) for the period before tax (Exceptional and/or Extraordinary	-45.45	-30.92	-49.89	-182.37	-140.95
Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-45.45	-30.92	-49.89	-182.37	-140.95
Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-45.45	-30.92	-49.89	-182.37	-140.95
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-45.45	-30.92	-49.89	-182.37	-140.95
Equity Share Capital	1144.93	1144.93	1144.93	1144.93	1144.93
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheets	-2387.43	-2246.48	-2246.48	-2387.43	-2246.48
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each (for continuing and discontinued operations) Basic Diluted	-0.40 -0.40	-0.27 -0.27	-0.44 -0.44	-1.59 -1.59	-1.23 -1.23

Place:Delhi

Date: 30/05/2023

पंजी. कार्यालय : यूनिट नंबर 8, मू तल, पाकेट एम, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 टेलीफोन : 011-47366600. ई-मेल : info@rotoindia.co.in वेबसाइट : www.rotoindia.co.in 31 मार्च, 2023 को समाप्त चौथी तिमाही और वर्ष हेतु पथक्कत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरए

रोटोग्राफिक्स (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन : एल७४८९९डीएल१९७६पीएलसी००८०३६

			(रू. लाख में, सिवाय इंपीएस)
विवरण	तिमाही समाप्त 31—03—2023 लेखापरीक्षित	वर्ष समाप्त 31—03—2023 लेखापरीक्षित	विमाही समाप्त 31–03–2022 लेखापरीक्षित
परिवालन से कुल आय (शुद्ध)	12.76	20.60	11.40
अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाघारण मदों से पहले)	4.04	2.09	3.58
अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	4.04	2.09	3.58
अवधि हेतु शुद्ध लाग/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाघारण मदों के बाद)	3.51	1.55	2.71
अविध हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अविध हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	3.53	1.57	2.72
इक्विटी शेयर पूंजी	360.13	360.13	360.13
प्रति शेयर अर्जन मूल एवं तनुकृत (वार्षिककृत नहीं)	0.10	0.04	0.08
नोटम •			

. उपरोक्त विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए 31 मार्च, 2023 को समाप्त चौथी तिमाही और वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त चौथी तिमाही और वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट www.bseindia और कम्पनी की वेबसाइट www.rotoindia.co.in पर उपलब्ध है।

उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामो की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

वास्ते रोटोग्राफिक्स (इंडिया) लिमिटेड

तिथि : 31-05-2023

कम्पनी सचिव

#### HIMALAYA FOOD INTERNATIONAL LIMITED Regd. Office:- 118, 1st Floor, 12 Gagandeep Building, Rajendra Place, New Delhi:-110008 Tel:-+91 11 45108609, Fax:-+91 1704 225178 E-mail id:- cs@himalyainternational.com | website:- www.himalayafoodcompany.com

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

	(Rs. In Lakns)					III Lakiis)
		Q	uarter Endec	i	Year F	inded
S.	Particulars	March	December	March 31,	March	March
No.	T undodiuro	31, 2023	31, 2022	2022	31, 2023	31, 2022
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	4293.80	2074.97	1457.12	9751.16	6550.24
2.	Net Profit for the period					
	(beforetax & exceptional items)	(3178.95)	538.76	696.81	(2470.76)	1137.43
3.	Net Profit for the period before Tax					
	(after exceptional items)	(3178.95)	538.76	696.81	(2470.76)	9492.32
4.	Net Profit for the period after Tax					
	(afterexceptional items)	(3127.95)	538.76	728.81	(2419.76)	9524.32
5.	Total Comprehensive income for the period					
	[Comprising Profit for the period (after tax)					
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	(3127.95)	538.76	728.81	(2419.76)	9524.32
6.	Paid-up Equity Share Capital					
	(Face Value of Rs. 10/- per share)	5787.29	5787.29	5787.29	5787.29	5787.29
7.	Earnings Per Share					
	i) Basic in Rs.	-5.40	0.93	1.26	-4.18	16.46
	ii) Diluted in Rs.	-5.40	0.93	1.26	-4.18	16.46

### Notes:- 🌊

- 1. The above audited results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on Tuesday, May 30, 2023. The results have been audited by the Statutory Auditors of the Company and they have issued unmodified report.
- 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company Website (www.himalayafoodcompany.com).

3. Additional information on standalone financial results is as follows:

		Quarter Ended	Quarter Ended			Year I	Ended
S. No.	Particulars	March 31, 2023		March 31, 2022		March 31, 2022	
140.			(Unaudited)				
1.	Income from Operations	4293.80	2074.97	1457.12	9751.16	6550.24	
2.	Profit before tax	(3178.83)	538.76	696.81	(2470.64)	9492.32	
3.	Profit after tax	(3127.83)	538.76	728.81	(2419.64)	9524.32	

4. The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.

5. During the 1st quarter ending 30th June 2022 the Company had fire in their Gujarat plant. Stocks of around Rs. 16.21 crore have been burnt. The Company is expecting to receive the Insurance claim of around Rs. 28 crore against the fire lost stocks & the loss of building & plant & machinery around Rs. 52.14 crore is submitted to the agencies deployed by the Insurance Company. The depreciation charged during the FY 2022-23 has been an old block before the fire and post after the fire.

For and on behalf of the Board Man Mohan Malik

Date: - 30.05.2023 Director (DIN: 00696077) Place:- Gujarat

## सेवानिवृत शिक्षक ने किसान को पुत्रों सहित गोली मारकर किया घायल, मौत

फर्रखाबाद। किसान को सेवानिवृत शिक्षक ने पुत्रो सहित गोली मारकर किया घायल,मौत बीती रात गाली-गलौज का विरोध करना किसान को भारी पड़ गया। रिटायर्ड अध्यापक ने पुत्रों के साथ मारपीट कर उसे गोलियों से भून दिया। इसे गंभीर हालत में सीएचसी लाया गया जहाँ से आधी रात को पुलिस उसे लोहिया अस्पताल लेकर पंहुची, जहाँ किसान को मृत घोषित कर दिया। पुलिस नें मामले में मुकदमा दर्ज कर दो को हिरासत में लिया है।

कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम गैसिंगपुर निवासी 50 वर्षीय मनोज कुशवाह का गाँव के ही परिवारी रामप्रताप व उनके पुत्रों से विवाद चलता था। रामप्रताप के पुत्र आये दिन शराब के नशे में आकर गाली-गलौज करते थे। दो दिन पूर्व भी विवाद हुआ था। मनोज के पुत्र अन्नू सिंह नें बताया कि बीती रात लगभग 9-10 के बीच रामप्रताप के पुत्र सत्यम सिंह व शिवम सिंह मेरे घर में दाखिल हुए और गाली-गलौज करनें लगे।

### MOULIN COMMERCIAL LIMITED Regd. Off.: 1, Anand Gram, Aya Nagar, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047 CIN: L74899DL1982PLC087811 Telephone No.: 91-124-4301035 E-Mail: into@vinylgroup.comWebsite: www.moulin.co.in ail: info@vinylgroup.comWebsite: www.moulin.co.in ent of Audited Standalone Financial Results for the

की एक टीम को घटना स्थल पर भेजा गया।

Particular	Quarte	r ended	Year Ended
Particular	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
Total Income from Operations	8.57	27.09	81.11
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.87)	1.28	14.17
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.87)	1.28	14.17
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4.95)	0.88	11.88
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(5.69)	0.64	11.67
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	57.30	57.30	57.30
Reserves excluding Revaluation Reserves			
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-  1. Basic:	(0.99)	0.11	2.04
2. Diluted:	(0.99)	0.11	2.04

The above is an extract of the detailed format of the Audited Standalone Financia Results for the fourth quarter and financial year ended 31st March, 2023 filed with the CSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results ended 31st March, 2023 is available on CSE website (https://www.cse-india.com/) and Company's website (www.moulin.co.in)

The above Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee an approved by the Board of Directorsin its meeting held on 30th May, 2023.

ASHISH GUPTA (MANAGING DIRECTOR Date: 30.05.2023 DIN: 00115090